

'टॉम्ब ऑफ सैंड' ने जीता अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

'टॉम्ब ऑफ सैंड' किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक बन गई है जसि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- मूल रूप से हदि में **रेत समाधि** के रूप में प्रकाशित पुस्तक लेखक गीतांजलि शिरी द्वारा लिखी गई है और डेजी रॉकवेल द्वारा अंगरेजी में अनुवादित है।
- यह कतिाब एक 80 वर्षीय महिला की कहानी बताती है जो अपने पतकी मृत्यु के बाद एक गहरे अवसाद का अनुभव करती है। आखरिकार, वह अपने अवसाद को दूर करती है और अंततः अतीत का सामना करने के लिये पाकस्तान का दौरा करने का फैसला करती है जसि उसने वभिाजन के दौरान पीछे छोड़ दिया था।



अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार:

- अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वार्षिक रूप से किसी एक पुस्तक को प्रदान किया जाता है जसिका अंगरेजी में अनुवाद किया गया हो **औस्यूके या आयरलैंड** में प्रकाशित किया गया हो।
- अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई।
- इस पुरस्कार का उद्देश्य विश्व भर के उच्च-गुणवत्ता वाले उपन्यासों को अधिक से अधिक पढ़ने को प्रोत्साहित करना है।
- हालाँकि इसका यूके में पहले से ही काफी प्रभाव पड़ा है।
- अनुवादकों के महत्त्वपूर्ण काम का जश्न मनाया जाता है जसिमें 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से वभिाजित होती है।
- प्रत्येक शॉर्टलिस्ट किये गए लेखक और अनुवादक को भी 2,500 पाउंड प्राप्त होते हैं।
- उपन्यास और लघु कथाओं के संग्रह दोनों ही इसके लिये पात्र हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस